



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1944 (श0)

(सं0 पटना 325) पटना, बृहस्पतिवार, 02 जून 2022

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

1 जून 2022

सं0 सं0-03/स्था0 रा0अ0 (64वीं नियुक्ति)-22/2021-272(3)/रा०—बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	122502	श्री लव शर्मा पिता—श्री दिनेश शर्मा, पता—256, पटेल नगर, संजय मार्ग, न्यू मंडी, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश, पिन—251001	उत्तर प्रदेश	16.01.90	183	01— सामान्य	01— सामान्य	
2	563347	श्री अभिषेक कुमार पिता—श्री गौड़ीशंकर झा, पता—मकान सं0-111, विद्यापति चौक, कटहलबाड़ी, जिला—दरभंगा, बिहार,	दरभंगा	28.10.88	257	01— सामान्य	01— सामान्य	

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		पिन-846004						
3	257240	मो० अफरोज आलम पिता-श्री अब्दुल रहमान, ग्राम+पो०-तिसरी, थाना-तिसरी, जिला-गिरडीह, झारखण्ड, पिन-815317	झारखण्ड	14.03.89	295	01- सामान्य	01- सामान्य	
4	273489	श्री विकास आनन्द पिता-श्री प्रमोद कुमार, पता-आर०डी० मेन्सन, (नेक्सट टू श्री नर्सिंग होम) शेखपुरा, (सब्जी मंडी रोड) पो०-बी०भी० कॉलेज, जिला-पटना, पिन-800014	पटना	22.12.91	338	01- सामान्य	01- सामान्य	
5	369428	श्री पंकज कुमार झा पिता-स्व० गोपाल झा, पता-रजिस्ट्री ऑफिस चौक, वार्ड नं०-7, बहादुरगंज, जिला-किशनगंज, बिहार, पिन-855101	किशनगंज	10.05.82	507	01- सामान्य	01- सामान्य	
6	338591	श्री नैतिक कुमार पिता-स्व० नंद किशोर लाल, गुरुद्वारा रोड, मुखियाजी गली, एल०एस०लेन, जिला-गया, पिन-823002	गया	10.12.90	577	05- पिछड़ा वर्ग	05- पिछड़ा वर्ग	
7	535276	सुश्री स्वाति वर्मा पिता-श्री सुरेश कुमार वर्मा, पता-हाउस नं०-1354 / 31, लेन-03, फेज-01, लक्ष्मण विहार, गुरुग्राम, हरियाणा, पिन-122001	हरियाणा	19.05.89	903	01- सामान्य	01- सामान्य	
8	330113	श्री गौतम कुमार पिता-श्री श्याम बिहारी प्रसाद, ग्राम-नवादा, पो०-बी०टी० बिगहा, थाना-शेरघाटी, जिला-गया, पिन-824211	गया	10.02.93	1007	04- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	

1. (i) सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति अधिसूचना निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर मुख्य सचिवालय स्थित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

(ii). सभी अभ्यर्थी फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की छायाप्रति के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

(iii). सभी नव नियुक्त पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग स्तरीय प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम एवं स्थल की सूचना विभागीय वेब-साइट-www.lrc.bih.nic.in के माध्यम से दी जायेगी।

2. (i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न/गलत सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

(iii) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी को फोटो युक्त नियुक्ति अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल रूप में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(v) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1964, दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे०को०, दिनांक-03.07.2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

6. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अधीन सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कंचन कपूर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 325-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>